

सेना की जासूसी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जासूसी में लगे इंटरनेशनल गिरोह के 11 लोग गिरफ्तार

यूपी एटीएस ने लखनऊ, सीतापुर, हरदोई के 10 युवकों को दबोचा

अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ।

यूपी एटीएस ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले बुधवार को सेना की जासूसी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने मंगलवार देर रात लखनऊ, सीतापुर और हरदोई से 10 युवकों को जबकि मास्टर माईड गुलशन को दिल्ली से गिरफ्तार किया। ये युवक अवैध एक्सचेंज के जरिए विदेशों से आने वाली कॉल को एक डिविजन से लोकल कॉल में बदलकर सेना के अफसरों को फोन करते थे और खुफिया जानकारी जुटाने में लगे थे। एटीएस ने इन नंबरों को सर्विलांस पर लेकर सुना तो पता चला कि यह काम लखनऊ, सीतापुर और हरदोई से हो रहा है।

यूपी में गिरफ्तार युवकों को बुधवार को लखनऊ में प्रभारी विशेष एसीजेएम रजनीश मिश्रा की भदालत में पेश किया गया।

>> शेष पेज 12 पर



ये हुए गिरफ्तार

मास्टरमाईड को दिल्ली में दबोचा यूपी में पकड़े युवकों को जेल भेजा

दिल्ली में फिटजी में पढ़ता है गिरोह का सरगना गुलशन

>> पेज 3 पर

लखनऊ : राहुल रस्तोगी, शिवेंद्र मिश्रा, हर्षित गुप्ता, विशाल कक्कड़, राहुल सिंह।
हरदोई : विनीत कुमार।
सीतापुर : ऋषि होरा, श्याम बाबू, उत्तम शुक्ला, धियानस वर्मा।

जम्मू-कश्मीर ने दी थी एटीएस को सूचना नवर यूपी का, कॉल पाकिस्तान से

जम्मू-कश्मीर में सेना के खुफिया विभाग के अधिकारियों ने यूपी एटीएस को सूचना दी थी कि यूपी के कुछ नंबरों से सेना की टुकड़ियों के पास जासूसी की नीयत से फोन आ रहा है। एटीएस की जांच में पता चला कि सेना के पास जिन नंबरों से कॉल पहुंच रही थी, वे यूपी के शहरों के नंबर थे, लेकिन कॉल पाकिस्तान से आ रही थी। गिरोह के सदस्य इंटरनेशनल कॉल के लिए इस्तेमाल होने वाले अंतरराष्ट्रीय गेटवे के स्थान पर अपना गेटवे इस्तेमाल कर रहे थे। इसके लिए इनके कई एजेंट अलग-अलग हिस्सों में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे। जांच में दूरसंचार विभाग की निगरानी वाले विभाग दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं निगरानी सेल ने मदद की।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने सेना, पुलिस और दूरसंचार विभाग के टर्म सेल की मदद से अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और नई दिल्ली के महारौली से की गई है। डीजीपी इस टीम को पुरस्कृत करेंगे।

एटीएस के आईजी असीम अरुण ने बताया कि एटीएस टीम ने लखनऊ के अलीगंज के सेक्टर जे में रहने वाले राहुल रस्तोगी, मडियांव के शिवेंद्र मिश्रा, अमीनाबाद के हर्षित गुप्ता, राजाजीपुरम निवासी विशाल कक्कड़ और प्रियदर्शीनी कॉलोनी में रहने वाले बुलंदशहर निवासी राहुल सिंह, हरदोई के सयथोक पश्चिम निवासी विनीत कुमार दीक्षित, सीतापुर के चर्च रोड निवासी रिषी होरा, सुकखूमल रोड

बड़ी सफलता



● लखनऊ, सीतापुर और हरदोई से भी हुई गिरफ्तारियां
● दुबई और पाकिस्तान से जुड़े हैं रैकेट के तार

के श्याम बाबू, शमशेर बाग कॉलोनी के उत्तम शुक्ला और सिविल लाइंस निवासी विकास वर्मा को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के महारौली से सरगना गुलशन सेन भी पकड़ा गया है। संबंधित खबरें >> 13

अमर उजाला

दैनिक जागरण

यूपी एटीएस ने अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल करने वाला रैकेट पकड़ा ,

11 अभियुक्त गिरफ्तार, 18 से अधिक सिमबाक्स व अन्य उपकरण बरामद

24 जनवरी 2017 को उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज लगाकर अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल कराने वाला रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 11 अभियुक्तों को जनपद लखनऊ, हरदोई, सीतापुर एवं नई दिल्ली मेहरौली से गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर मिलिट्री इंटेलेजेंस को सूचना मिली कि कुछ भारतीय नंबरों से जासूसी करने के उद्देश्य से आर्मी यूनिट पर काल आ रहे थे। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इन नंबरों की जांच की तो पाया कि अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से भारत के बाहर से कॉल किए जा रहे हैं। परंतु डिस्प्ले पर भारत का ही नंबर दिखाता है।

पुलिस महानिरीक्षक एटीएस उत्तर प्रदेश श्री असीम अरुण के निर्देश पर इस प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए गहनता से विश्लेषण करने से यह जानकारी हुई कि इस तरह के अवैध टेलीफोन लखनऊ, सीतापुर, हरदोई जनपदों में संचालित हैं। इनको चलाने वाले किसी दूसरे के नाम पते पर सिम प्राप्त कर सिम बाक्स में डाल कर चलाते हैं गिरफ्तार अभियुक्तगणों के पास से सिमकार्ड, सिमबाक्स मोबाइल तथा कम्प्यूटर सहित अन्य उपकरण बरामद हुए हैं।

बयान आईजी एटीएस यूपी "एटीएस द्वारा सिम बाक्स का भंडाफोड़ करने से जासूसी कर रहे एजेंटों का काम मुश्किल हो जाएगा। अब यह अंतरराष्ट्रीय फोन गेटवे से बचकर कॉल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सेना और टर्म सेल के साथ मिलकर अन्य ऐसे ऑपरेटरों के विरुद्ध कार्रवाही की जाएगी। इससे आतंकवादियों और जासूसों का काम मुश्किल तो होगा ही सरकार और मोबाइल कंपनियों को हो रही करोड़ों की हानि भी बचेगी।"

निम्नलिखित गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम

- 1- राहुल रस्तोगी पुत्र स्वर्गीय कमल रस्तोगी निवासी सीतापुर हाल पता सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ
- 2- शिवेंद्र मिश्रा पुत्र चंद्र प्रकाश मिश्रा निवासी सीतापुर हाल पता मडियांव लखनऊ

- 3- हर्षित गुप्ता संजय गुप्ता निवासी अमीनाबाद लखनऊ
- 4- विशाल कक्कड़ पुत्र ओमप्रकाश निवासी राजाजीपुरम लखनऊ
- 5- राहुल सिंह पुत्र रतन पाल सिंह राशि बुलंदशहर हाल पता प्रियदर्शनी कॉलोनी लखनऊ
- 6- विनीत कुमार दीक्षित पुत्र कमलेश्वर निवासी सराय थाना कोतवाली हरदोई
- 7- रिशि पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार निवासी चर्च रोड सीतापुर
- 8- श्याम बाबू उर्फ वीर पुत्र गया प्रसाद निवासी सुखुमल रोड सीतापुर
- 9- उत्तम शुक्ला पुत्र श्री राम शुक्ला निवासी शमशेर बाघ कॉलोनी सीतापुर
- 10- विकास वर्मा पुत्र अशोक प्रकाश वर्मा निवासी सिविल लाइन सीतापुर
- 11- गुलशन सिंह पुत्र माता दिन सेन निवासी महरौली दिल्ली



एटीएस टीमो द्वारा लखनऊ, सीतापुर ,हरदोई से गिरफ्तारअभियुक्तगणों के फोटो